

February 02, 2024

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051

Symbol: LALPATHLAB

BSE Limited
Corporate Relationship Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400 001

Scrip Code: 539524

Sub: Newspaper advertisement (s)

Ref: Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2023

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached the copy of newspaper advertisement(s) of Financial Results of the Company for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2023, published in Financial Express and Jansatta on February 02, 2024.

We request you to please take the same on record.

Thanking You, Yours Faithfully,

For Dr. Lal PathLabs Limited

Vinay Gujral
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

NOTICE ISSUED FOR EGM

Key investors want Byju's founders out

Reconstitution of the board also on the agenda

ANEES HUSSAIN Bengaluru, February 1

JUST DAYS AFTER troubled edtech firm Byju's launched a rights issue to raise \$200 million from existing shareholders, its key investors are seeking to oust its top brass led by founder-CEO Byju Raveendran.

Staing that they are "deeply concerned" about future stability under the current leadership, the investors are seeking an extraordinary general meeting (EGM) to adopt resolutions on outstanding governance, financial mismanagement and compliance issues.

The reconstitution of the board of directors, so that it is no longer controlled by the founders of Byju's parent company Think & Learn, and a change in leadership of the company, is also on their agenda. At present, the company's board consists of founder and CEO Byju Raveendran, his co-founder and wife Divya Gokulnath, and his brother Riju Ravindran. Other members had quit last year. Sources said the statement is on behalf of Prosus, Peak XV, Sofina, Lightspeed and General Atlantic.

"This is the third time they are issuing an EGM notice. They don't have the rights to enforce an EGM," said a person close to the developments.

The person added that 6 of around 80 investors on the company's cap table have indicated that they would participate in the rights issue.

In a letter sent to the shareholders on January 29, Raveendran had informed them about the board's decision to raise cap**TOUGH QUESTIONS**



■ However, a source said the investors don't have the rights to enforce an EGM

■ At present, the board consists of founder and CEO Byju Raveendran, his co-founder and wife Divya Gokulnath, and his brother Riju Ravindran

ital through the rights issue. According to sources, Byju's has reduced the monthly burn rate of its core business to ₹50

crore and aims to achieve operational break-even in the next 2-3 months. Additionally, the company plans to reconstitute the board after completing the FY23 audit.In the letter to shareholders, Raveendran had drawn parallels between the battles the company is going through to the struggles depicted in the verses of 'Invictus' by William Ernest Henley: "In the fell clutch of circumstance I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeoning of chance, My head is bloody, but unbowed".

"We believe an expeditious capital raise will provide the company with the resources it needs to rebuild and scale. This shall be used for the continuation of business operations, to manage obligations and to make the company more sustainable,"Raveendran said in the letter."This capital raise is essen-

tial to prevent any further value impairment and to equip the company with necessary resources to deliver on its mission," he added. "It has been 21 months since our last external capital raise, during which we have cut our burn and worked to become a lean organisation, razor-focused on execution," Raveendran said.

In the letter, Raveendran also revealed that the founders have infused over \$1.1 billion of their personal funds into the company over the past 18 months.

"We have made immense personal sacrifices for the sake of the company. We have spent our lives building this company and are fervent believers in its mission. Our enthusiasm and zeal continue unabated," Raveendran said.

In November 2023, tech investor Prosus marked down the value of its stake in Byju's, which resulted in the company's valuation coming down to less than \$3 billion.

RIL, Bodhi Tree to buy 60% in Disney India

Ambani's Viacom18, Walt Disney's unit seek to merge ops

VIVEAT SUSAN PINTO Mumbai, February 1

THE WALT DISNEY Company, which is amongst the world's largest media companies, has agreed to sell 60% of its shareholding in its India business — Disney Star — to Reliancebacked Viacom 18, as the two seek to merge their operations, the *Wall Street Journal* (WSJ) reported on Thursday. The two players had signed a non-binding agreement in December to merge their India units.

Of the 60%, Bodhi Tree, a joint venture between James Murdoch and former top Disney executive Uday Shankar, is set to take a stake of around 9% in the new merged entity, Reuters reported.

The likely deal could be

DONE DEAL

■ The likely deal could be signed as early as this month Disney will likely retain **40%** in the

merged entity,

valuing Disney

signed as early as this month,

WSJ said, coming at a time

when the proposed \$10-bil-

lion merger between Zee and

was in the works for over two

years and would have created

a rival combine, media

experts said. Zee and Sony

have since dragged each other

to court over the failed

merger, accusing each other

of scuttling the deal.

The now-failed merger

Sony collapsed last week.

Star, at

\$3.9 bn



content creators

significant heft and premium over advertisers, users and

agreement is coming at a time when the proposed \$10-bn merger between Zee and Sony collapsed last week



comment on the issue.

Bloomberg had reported last month that Disney Star had been valued at \$4.5 billion, lower than the initial \$10-billion valuation, as persistent subscriber losses in the streaming platform Hotstar as well as a potential write-off of the sale of International Cricket Council (ICC) TV rights to Zee for \$1.5 billion, weighed on the transaction. Last week, Zee called off the ICC TV deal with Disney for the 2024-27

period, bringing to an end the uncertainty around the contract. Speculation, however, has been growing that Disney may drag Zee to court for not honouring the deal, which was signed in August 2022. The Disney-Reliance combine will create an entity that will have a turnover of nearly ₹29,000 crore and a combined viewership market share of 35-40% across 115 channels, two video streaming platforms and two film studios (Star Studios and Jio Studios).

Disney+ Hotstar, which has nearly 38 million users, owns the rights for International Cricket Council's matches in India until 2027, while Reliance's JioCinema app has the rights for the popular cricket league IPL. The combine is expected to command significant heft and premium over advertisers, users and content creators if they come together wielding anti-competitive power, experts said.

Paytm shares sink 20% post RBI crackdown

Disney will likely retain

40% in the merged entity, WSI

said, valuing Disney Star, at

\$3.9 billion. This is lower than

Disney Star's initial valuation

of \$10 billion, which emerged

when Disney first indicated in

July last year that it was explor-

ing strategic options for its

India operations including a

when contacted. Viacom 18 was

not immediately available for

Disney declined comment

sale or joint venture.

AJAY RAMANATHAN Mumbai, February 1

A DAY AFTER the Reserve Bank of India (RBI) barred Paytm Payments' Bank from taking deposits and doing credit transactions including top-ups in any customer accounts, wallets, FASTags, other instruments after February 29, the stock price of the associate company — One 97 Communication — hit the lower circuit of 20%.

The stock slumped 19.99% to ₹609 on the National Stock Exchange. It fell 20% to its lower circuit limit of ₹608.80 on the BSE. The company's market capitalisation fell by ₹9,666 crore to ₹38,664 crore in early trade after many brokerages downgraded their rating on the stock.

"RBI's actions directly impact the wallet business and profitability of merchant payments business, which can

ONE 97 COMMUNICATIONS 1,000_ Share price (₹) Jan 2, 2023 Feb 1, 2024

impact Ebitda by 20-30%," Jefferies said in a report.

The brokerage added that the impact on Paytm's business will largely come from reputational concerns arising from governance/compliance and hence, the path to resolution will be from stronger compliance with regulations and revoking of RBI measures. In an analyst call on Thursday, Paytm parent

VIJAY SHEKHAR SHARMA, FOUNDER AND CEO, PAYTM THIS (RBI ACTION) IS MORE OF A SPEED BUMP, **BUTWE BELIEVE IN** PARTNERSHIP OF THE BANKS AND WE WILL BE ABLE TO SEE TO THE SAME IN A FEW DAYS

One 97 Communications said that it is working with partner banks for its payments and financial services business. Vijay Shekhar Sharma, founder and CEO, Paytm, made it clear that the company will bring down its dependence on associate Paytm Payments Bank. "OCL and PPSL are already in process of moving nodal accounts to other banks, and marketing business services are not affected due to these directions," Sharma said.

"On the behalf of Paytm, this is more of a speed bump, but we believe in partnership of the banks and we will be able to see to the same in the next few days,"he said.

President and Group Financial Officer Milind Deora said that the company will work with large banks and who also provide these services to other consumer companies.


On Wednesday, RBI directed the payments bank to stop accepting deposits or top-ups in any customer accounts, wallets, FASTags, other instruments after February 29. Also, it said that the nodal accounts of One97 Communications and Paytm Payments Services are to be terminated at the earliest, in any case not later than February 29. In its notification, RBI said that the action on the company was due to persistent non-compliances and continued material supervisory concerns.

In March 2022, the central bank had directed the payments bank to stop onboarding new customers.Additionally,RBI had directed the payments bank to appoint an income tax audit firm to conduct a thorough audit of its information technology system.

Manufacturing PMI surges in January

MANUFACTURING SECTOR GROWTH climbed to a four-month high in January as a sharper upturn in new orders boosted output growth amid mild cost inflation, a monthly survey said on Thursday. The seasonally adjusted HSBC India Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) recovered from an 18-month low of 54.9 in December to 56.5 in January.

The latest reading highlighted the strongest improvement in the health of the sector since last September. "India's final manufacturing PMI showed that manufacturing activity accelerated in January. Current output expanded on robust demand, with domestic orders growing at a faster pace than export orders," Ines Lam, Economist at HSBC, said.





Dr. Lal PathLabs Limited

CIN: L74899DL1995PLC065388

Regd. Office: Block E, Sector-18, Rohini, New Delhi- 110085

Corporate Office: 12th Floor, Tower B, SAS Tower, Medicity, Sector-38, Gurugram – 122 001, Haryana Phone: +91 124 3016500 | Fax: +91 124 4234468; Website: www.lalpathlabs.com; Email: cs@lalpathlabs.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE **QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER, 2023**

(Rs. in million except as sta					
S. No.	Particulars	3 months ended 31 December, 2023	Nine months ended 31 December, 2023	Corresponding 3 months ended 31 December, 2022	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	
1	Total Income from Operations	5,572	17,320	4,999	
2	Net Profit for the period before Tax and Exceptional items#	1,159	3,856	765	
3	Net Profit for the period before Tax and after Exceptional items#	1,159	3,856	765	
4	Net Profit for the period after Tax and after Exceptional items#	822	2,765	536	
5	Total Comprehensive Income for the period after tax#	824	2,768	548	
6	Paid up Equity Share Capital (face value of Rs. 10/- per share)	835	835	834	
	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (not annualised)				
7	(a) Basic (In Rs.)	9.77	32.88	6.37	
	(b) Diluted (In Rs.)	9.76	32.81	6.35	

*Before non-controlling Interest

Key numbers of the Standalone Results are as under:

(Rs. in million except as stated)

(ii) Key Standalone financial information :

Long term rating ICRA

Place: Jaipur

AA (Stable)

1. 1	vey numbers of the Standalone Nesults are as	(1)	is. III IIIIIIoii except as stated)	
S. No.	Particulars	04 5 1 0000 0		Corresponding 3 months ended 31 December, 2022
NO.		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total Income from Operations	4,911	15,320	4,380
2	Profit for the period before Tax	1,195	3,955	842
3	Profit for the period after Tax	883	2,949	626
4	Total comprehensive income	883	2,950	638

held on 1 February, 2024. iii. The Board of Directors, which has been identified as being the chief operating decision maker (CODM), evaluates the Group's performance, allocates resources based on the analysis of the various performance indicators of the Group as a single unit. Therefore there is no reportable segment for the Group, in accordance with the requirements of Indian Accounting

Standard 108 - 'Operating Segments', notified under the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015.

and www.nseindia.com) and the Company's website (www.lalpathlabs.com).

The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings

iv. The consolidated other equity(excluding revaluation reserve) as on 31 March 2023 is 15,829 Million. v. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and nine months financial results as per Ind AS filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full Financial Results of the Quarter and nine months ended is available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com

For and on behalf of the Board of Directors of Dr. Lal PathLabs Limited Date: 1 February, 2024

WE UNDERSTAND OUR RESPONSIBILITY AND COMMITMENT TO FULFILL DREAMS 16079 CR 206500+ 13089 CR 175000+ 348.10 CR 9M FY 22-23 DISBURSEMENT AUM PAT ACTIVE LOAN ACCOUNTS **Aavas Financiers Limited**

(CIN: L65922RI2011PLC034297)

Regd. & Corp. Office: 201-202, 2nd Floor, Southend Square, Mansarovar Industrial Area, Jaipur-302020, Rajasthan (INDIA) Phone No.: +91-141-4659239, Website: www.aavas.in, E-mail: info@aavas.in

Statement of consolidated unaudited financial results for the guarter and nine months ended December 31, 2023

SI No.	Particulars	Quarter ended December 31, 2023 (Unaudited)	Quarter ended December 31, 2022 (Unaudited)	Nine Months ended December 31, 2023 (Unaudited)	Year ended March 31, 2023 (Audited)
1	Total Income from Operations	50,806.51	41,136,56	1,47,187.53	1,60,876.39
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items)	14,981.48	13,776.57	44,801.42	54,842.39
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	14,981.48	13,776.57	44,801.42	54,842.39
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	11,672.32	10,712.29	34,821.33	42,964.38
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	11,672.32	10,712.29	34,810.17	43,049.20
6	Paid up Equity Share Capital	7,913.64	7,903.94	7,913.64	7,905.69
7	Reserves (excluding revaluation reserve)	3,55,239.19	3,06,712,59	3,55,239.19	3,19,060.31
8	Securities Premium Account	1,36,291.17	1,35,802,32	1,36,291.17	1,35,963.21
9	Net Worth	3,63,152.83	3,14,616,53	3,63,152.83	3,26,966.00
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	11,44,409.21	9,14,455.99	11,44,409.21	9,85,260.71
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA:	NA NA	NA NA	NA
12	Debt Equity Ratio	3.15	2.91	3.15	3.01
13	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (EPS for the quarters/ nine months are not annualised)				
	1. Basic:	14.75	13.56	44.02	54.38
	2. Diluted:	14.73	13.52	43.95	54.26
14	Capital Redemption Reserve	NA NA	NA	NA	NA
15	Debenture Redemption Reserve	NA NA	NA	NA	NA
16	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA
17	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA

(i) The above results for the quarter and nine months ended December 31, 2023 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on February 01, 2024 and subjected to limited review by the statutory auditors of the Company.

Particulars	Quarter ended December 31, 2023 (Unaudited)	Quarter ended December 31, 2022 (Unaudited)	Nine Months ended December 31, 2023 (Unaudited)	Year ended March 31, 2023 (Audited)
Total Income from operations	50,800.56	41,125.71	1,47,147.83	1,60,830.17
Profit before tax	14,973.56	13,796.84	44,695,56	54,899.60
Net profit after tax	11,664.60	10,727.46	34,807.88	43,007.21

(iii) The above is an extract of the detailed format of quarterly and nine months financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly and nine months ended financial results are available on the websites of Stock Exchange at www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the website of the Company i.e. www.aavas.in.

(iv) For the other line items referred in Regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made and available on the websites of the Stock Exchange at www.nseindia.com and www.bseindia.com (v) There is no impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies for the quarter and nine months ended Decmber 31, 2023. (vi) Figures for the previous year / period have been regrouped and / or reclassified wherever considered necessary.

Date: February 01, 2024

Long term rating CARE

AA (Stable)



DIN - 08697657 Permanent Employees

For AAVAS FINANCIERS LIMITED

Sachinderpalsingh Jitendrasingh Bhinder

(Managing Director & CEO)

www.aavas.in

(Hony) Brig. Dr. Arvind Lal **Executive Chairman**

1800-20-888-20

Branches 351

New Delhi

financialexp.ep

Place: Gurugram

तिथि: 01.02.2024

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

(निदेशक)

गुडलक इंडिया लिमिटेड (2) GOODLUCK

पंजीकृत कार्यालयः 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखम्भा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 वेबसाईटः www.goodluckindia.com, ईमेल : goodluck@goodluckindia.com CIN : L74899DL1986PLC050910 31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त नौमाही / तिमाही के एकल व समेकित अनकेक्षित

- 50	विर	त्तीय परिण		सार	5		(रू. लाख में)
क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31/12/2023 (अनंकेक्षित)	एकल समाप्त तिमाही 31/12/2022 (अनंकेक्षित)	समाप्त नौमाही 31/12/2023 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 31/12/2023 (अनंकेक्षित)	31/12/2022	समाप्त नौमाई 31/12/2023 (अनंकेक्षित)
2	परिचालनों से कुल आय शुद्ध लाम/हानि अवधि हेतु (कर पूर्व, अपवाद स्वरूप तथा/अथवा असाधारण सामग्री से पूर्व)	87827.15 4604.70	70594.61 2805.58	262228.49 13213.87		70594.61 2805.51	262228.49 13215.97
3	शुद्ध लाम/(हानि) अवधि हेतु कर के पूर्व (अपवाद स्वरूप अथवा असाधारण सामग्री के पश्चात्)	4604.70	2805.58	13213.87	4607.32	2805.51	13215.97
4	शुद्ध लाम / (हानि) अवधि हेतु तथा कर पश्चात् (अपवाद स्वरुप तथा / अथवा असाधारण सामग्री से पश्चात्)	3174.84	1840.11	9503.82	3176.74	1840.04	9505.20
5	अवधि हेतु कुल योग गहन आय (अवधि हेतु लाम/ हानि शागिल करकें तथा/अथवा असाघारण सामग्री पश्चात) तथा अन्य गहन तथा पूर्ण आय (कर पश्चात्)	3174.84	1840.11	9503.82	3176.74	1840.04	9505.20
6	इक्विटी शेयर पूंजी(अंकित मुल्य रु.2/- प्रत्येक)	567.13	545.13	567.13	567.13	545.13	567.13
7	संचय (गत वर्ष की बैलेंस शीट में दिखाए गए अनुसार पुनर्मूल्यांकन संचय को छोड़कर)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	प्रति अंश आय (रु. 2/— प्रत्येक) (लगातार, सतत तथा रियायती संचालन हेतु) मूलमूतः द्रवः	11.38 11.38	7.02 7.02	34.60 34.60		7.02 7.02	34.60 34.60

2. कम्पनी के निदेशक मण्डल ने आंतरिम लाभांश के रूप में प्रति शेयर रु. 3/-(150%) की घोषणा की हैं। वित्तीय वर्ष 2023-2024

2. कस्पना के निर्माण ने उल्लेश ने जातारन लागारा के अने ने ब्राय राजर रहें. जातारन के निर्माण के निर्माण के सिमित समीक्षा की हैं।
4. सांविधिक लेखा परीक्षक ने कंपनी के परिणाम की सीमित समीक्षा की हैं।
5. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकृटीकरण अपेक्षाएं), विनियमावली, 2015 (''सूचीकरण विनियमन'') के विनियम 33 के तहत बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॅक एक्सचेन्ज में प्रस्तुत किए गए समाप्त तिमाही के विस्तृत (स्टैंडअलोन और समेकित) वित्तीय परिणामों का सारांश है। समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्जेज की वेबसाइट (www.nseindia.com, www.bseindia.com) और कम्पनी की वेबसाइट (www.goodluckindia.com) पर भी उपलब्ध है।

कृत गुडलक इंडिया लिमिटेड हस्ता./-एम सी गर्ग

चेयरमैन DIN: 00292437



Dr. Lal PathLabs Limited

CIN: L74899DL1995PLC065388

Regd. Office: Block E, Sector-18, Rohini, New Delhi- 110085

Corporate Office: 12th Floor, Tower B, SAS Tower, Medicity, Sector-38, Gurugram – 122 001, Haryana **Phone:** +91 124 3016500 | **Fax:** +91 124 4234468; **Website:** www.lalpathlabs.com; **Email:** cs@lalpathlabs.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE **QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER, 2023**

Rs. in million except as state

S. No.	Particulars	3 months ended 31 December, 2023	Nine months ended 31 December, 2023	Corresponding 3 months ended 31 December, 2022
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total Income from Operations	5,572	17,320	4,999
2	Net Profit for the period before Tax and Exceptional items#	1,159	3,856	765
3	Net Profit for the period before Tax and after Exceptional items#	1,159	3,856	765
4	Net Profit for the period after Tax and after Exceptional items#	822	2,765	536
5	Total Comprehensive Income for the period after tax#	824	2,768	548
6	Paid up Equity Share Capital (face value of Rs. 10/- per share)	835	835	834
	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (not annualised)			
7	(a) Basic (In Rs.)	9.77	32.88	6.37
	(b) Diluted (In Rs.)	9.76	32.81	6.35

*Before non-controlling Interest

स्थानः गाजियाबाद

तिथिः फरवरी 01. 2024

Key numbers of the Standalone Results are as under

(Rs. in million except as stated)

Particulars	31 December, 2023	31 December, 2023	ended 31 December, 2022
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
Total Income from Operations	4,911	15,320	4,380
Profit for the period before Tax	1,195	3,955	842
Profit for the period after Tax	883	2,949	626
Total comprehensive income	883	2,950	638
F	Profit for the period before Tax Profit for the period after Tax Total comprehensive income	Fotal Income from Operations 4,911 Profit for the period before Tax 1,195 Profit for the period after Tax 883 Fotal comprehensive income 883	Total Income from Operations4,91115,320Profit for the period before Tax1,1953,955Profit for the period after Tax8832,949

The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings

iii. The Board of Directors, which has been identified as being the chief operating decision maker (CODM), evaluates the Group's performance, allocates resources based on the analysis of the various performance indicators of the Group as a single unit. Therefore there is no reportable segment for the Group, in accordance with the requirements of Indian Accounting Standard 108 - 'Operating Segments', notified under the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015.

The consolidated other equity(excluding revaluation reserve) as on 31 March 2023 is 15,829 Million.

v. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and nine months financial results as per Ind AS filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full Financial Results of the Quarter and nine months ended is available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Company's website (www.lalpathlabs.com).

> For and on behalf of the Board of Directors of Dr. Lal PathLabs Limited (Hony) Brig. Dr. Arvind Lal **Executive Chairman**

Place: Gurugram Date: 1 February, 2024

भारत सीटस लिभिटेड

सीआईएनः L34300DL1986PLC023540

रजि. कार्यालयः 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 वेबसाइट: www.bhartseats.com; ई-मेल: seats@bharatseats.net फोन: +91 9643339870-74, फैक्स: 0124-2341188 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(प्रति शेयर डेटा को छोड़कर लाखों रुपये में) नौ महीने समाप्ति सं. 31.12.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.03.2023 (अन–ऑडिटेड) (अन–ऑडिटेड) (अन–ऑडिटेड) (अन—ऑडिटेड) (अन–आाडटड) (आांडटड) 25,143.56 105,513.74 28,681.41 22,062.02 79,209.43 76,036.17 संचालन से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं से पहले) 910.57 647.64 2,306.04 1,912.14 2,963.09 756.48 कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद) 910.57 1,912.14 756.48 647.64 2,306.04 2,963.09 4 कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद) 551.53 678.98 475.01 1,697.86 1,417.78 2,154.64 अवधि के लिए कुल व्यापक आय [इस अवधि के लिए लाभ (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) 555.66 683.11 479.35 1,710.21 1,430.76 2,171.07 628.00 इक्विटी शेयर पूंजी 628.00 628.00 628.00 628.00 628.00 अन्य इक्विटी जैसा कि वर्ष की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट रं दिखाया गया है 14,005.58 8 प्रति शेयर आय (प्रत्येक रु. 2/–) (जारी और बंद परिचालन के लिए) (रुपये में) -4.52 6.86 1.76 2.16 1.51 5.41 (ए) बेसिक (रु.) 1.51 5.41 4.52 6.86 1.76 2.16 (ए) तरल (रुपये)

ए) उपरोक्त स्टॉक एक्सचेंज के तहत दायर त्रैमासिक/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है सेबी क विनियमन ३३ (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ)। विनियम, २०१५ त्रैमासिक का पूर्ण प्रारूप वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों, www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट 'www.bhartseats.com'. पर उपलब्ध हैं बी) भारत सीट्स लिमिटेड ("कंपनी") के उपरोक्त वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड-एएस) के अनसार तैयार किए गए हैं. जो कंपनी के नियम 3 के साथ (भारतीय लेखा मानक) नियम,

ग) उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा उनकी बैठक में है 01 फरवरी, 2024 को आयोजित किया गया है।

> बोर्ड की आदेशानुसार भारत सीटस लिमिटेड के लिए

> > हस्ता / -(रोहित रेलन)

स्थानः गुरुग्राम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दिनांकः गुरुवार, फरवरी 01, 2024

ROHA HOUSING

रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड

कॉपॅरिट ऑफिस: युनिट नं. 1117 एवं 1118, 11वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड टॉवर, सेक्टर 16, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201 301,

आधिपट्य सूचना (प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 8(1) के अतंर्गत)

रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड ("RHFPL" के रूप में संदर्भित) पंजीकृत कार्यालय : जजेटी हाउस, ए४४/४५, रोड नं.2, एमआईडीसी, अंधेरी इस्ट, मुम्बई -400093 के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) की घारा 13 (12) सपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऋणी(यों)(नीचे वर्णित नाम एवं पता) से उक्त वर्णित अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत सचना प्राप्ति दिनांक से 60 दिन के अंदर निम्न वर्णित ऋण राशि अदा करने की मांग की गई थी। बंकि नीचे दर्शाए गए ऋणी(यों) ने अदायगी में ब्रटि की है अत: नीचे दर्शाए गए ऋणी(यों) तथा सर्वसाधारण जनता को एतद द्वारा सूचना दी जाती

है कि निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्तियों का **सांकेतिक आधिपत्य** प्रतिभृतिहित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 की धारा 13 की उपधारा (4) के सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त कर लिया है। नीचे दर्शाए गए ऋणी(यों) को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार न करें और यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड के ऋणी(यों) के समक्ष वर्णित राशि एवं ब्याज के चार्ज (प्रभार) के अधीन होगा। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे।

화.	ऋणीयों / सहऋणीयों के नाम/ खाता सं./शाखा	संपत्ति का विवरण		आधिपत्य की दिनांक
1.	लेन: LANODCLPRS000005002945/ शाखा: नोएडा 1. देवेन्द्र सिंह 2. रितु पति देवेन्द्र सिंह दोनों का पता 1: म.न. 285, गली नं. 09, सौरभ विहार, दिल्ली, न्यू दिल्ली- 110044 दोनों का अन्य पता 2 - म.न. 262, सौरभ विहार जैतपुर, दिल्ली, न्यू दिल्ली- 110044	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, मकान नं. 8- पी, सुर्या नगर, फेस- II FF, अवासीय योजना, सेक्टर 91, तहसील एवं जिला फरीदाबाद, हरियाणा, फरिदाबाद- 121003 हरियाणा	12.09.2023 & ₹ 15,21,148/-	27-01-2024

प्राधिकृत अधिकारी स्थान : नोएडा तर्फे - रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड दिनांक : 02-02-2024

कॉपोरेंट कार्यालय: आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड आईसीआईसीआई

ficici Home Finance एचएफसी टॉवर, अंधेरी - कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400059, भारत शाखा कार्यालय: पहली मंजिल, खसरा नंबर 700, सरसावां परगना, सरोजिनी नगर, लखनऊ - 226008 [नियम 8(6)1 का परंतुक देखें]

अचल संपत्तियों की बिक्री हेत सचना प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण

तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सचना एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को नोटिस दिया जाता है कि प्रतिभृति लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका सांकेतिक कब्जा आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी द्वारा लिया गया, यहां नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण के अनुसार, **'जैसा है जहां है', 'जो है यही है' और 'जो कछ भी है वहीं है'** के आधार पर बेचा जाएगा:

क्र.	कर्जदारों/सह-कर्जदारों/	ज्ञात ऋणभारों, यदि	बकाया	आरक्षित	सम्पत्ति के	नीलामी की
सं.	गारंटरों ∕विधिक	कोई हो, सहित	राशि	मूल्य	निरीक्षण की	तिथि एवं 📗
	उत्तराधिकारियों के नाम	प्रतिभूत आस्तियों		जमा धरोहर	तिथि एवं	समय
	ऋण खाता सं.	का विवरण		राशि	समय	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	राम सिंह पाल (कर्जदार),	एनए, हरिहर नगर, पानीगांव वार्ड,	₹.	₹.	05 फरवरी,	21 फरवरी,
	गायत्री (सह-कर्जदार)	इस्माइलगंज, मिडल क्लास एनए	26,09,492/-	18,84,319/-	2024 11:00	2024
	ऋण खाता सं. LHLUC00001349576	लखनऊ–226018 में स्थित	23 जनवरी, 2024	₹.	बजे पूर्वा. से	02:00 बजे अप. से 03:00
	तथा LHLUC00001349577			1,88,440/-	03:00 बजे अप.	बजे अप.
-		·	1 (/D)	-4 A4' D		<u> </u>

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी ग्लोब टेक की वेबसाइट (यूआरएल लिक- https://BestAuctionDeal.com) पर आयोजित की जाएगी। बंधककर्ताओं/सुचिती को 20 फरवरी, 2024 को शाम 05:00 बजे से पहले अतिरिक्त ब्याज के साथ कुल बकाया का भूगतान करने का आखिरी मौका दिया जाता है, अन्यथा ये प्रतिभृत संपत्ति उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार बेची जाएंगी।

संभावित बोलीदाताओं को आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, पहली मंजिल, खसरा नंबर 700, सरसावां परगना, सरोजिनी नगर लखनऊ-226008 में 20 फरवरी 2024 को शाम 04:00 बजे से पहले जमा धरोहर राशि (ईएमडी) आरटीजीएस/डिमांड डाफ्ट (डीडी) (कॉलम ई देखें) के माध्यम से जमा करना होगा। संभावित बोलीदाताओं को आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, पहली मंजिल, केएच नंबर 700, सरसावां परगना, सरोजिनी नगर, लखनऊ- 226008 में पंजीकरण फॉर्म और बोली नियम और शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति भी 20 फरवरी 2024 को शाम 05:00 बजे से पहले जमा करनी होगी। जमा धरोहर राशि का डिमांड डाफ्ट (डीडी) किसी राष्ट्रीयकत/अनसचित बैंक से 'आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड-नीलामी' के पक्ष में लखनऊ में देय होना चाहिए। निरीक्षण, नीलामी के नियम और शर्तों या निविदाएं जमा करने के संबंध में किसी भी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए, कृपया आईसीआईसीआई होम

फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से 9920807300 पर या हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग पार्टनर नेक्सजेन सॉल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई और कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए कृपया https://www.icicihfc.com/ देखें।

दिनांक: 02 फरवरी, 2024 आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड स्थानः लखनऊ

ब्रिलिएन्ट पोर्टफोलिओस लिमिटेड पंजी. कार्यालय: बी-09, 412, आईटीएल ट्विन टावर, नेताजी सुभाष प्लेस,

पीतमपुरा, नई दिल्ली-110088 CIN No.: L74899DL1994PLCO57507 टेली : 011-45058963, ईमेल : brilliantpoortfolios@gmail.com

एतदद्वारा सचित किया जात है कि सेबी (सचीयन दायित्व एवं उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 एवं 47 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 12 फरवरी, 2024 को 11.30 बजे पूर्वो. में उसके पंजीकर कार्यालय में अयोजित की जाएगी सिमें अन्य विषयों के अलावे 31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी वे अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिए जाएंगे। सचना में शामिल जानकारी कम्पनी की वेबसाइट www.brilliantportfolios.com तथा बीएसई की वेबसाई www.bseindia.com पर उपलब्ध है। ब्रिलिएन्ट पोर्टफोलओस लिमिटेड के लिख

> "फॉर्म नंबर आईएनसी —26" ख्कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार,

केंद्र सरकार से पहले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में क्षेत्रीय निदेशक-उत्तरी क्षेत्र के माध्यम से के मामले में

लायन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (सीआईएन: U74899DL1994PLC062320) का पंजीकृत कार्यालय यहां है

यूनिट नंबर–111, अग्रवाल सिटी स्क्वायर, प्लॉट नंबर–10, डिस्ट्रिक्ट सेंटर मंगलम प्लेस, सेक्टर–3

रोहिणी सेक्टर-11, उत्तर पश्चिम दिल्ली-110085, दिल्ली ...आवेदक कंपनी आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के तहत

केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक-उत्तरी क्षेत्र के माध्यम से) को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पृष्टि की मांग की जाती है। कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "राजस्थान राज्य" में बदलने में सक्षम बनाने के लिए 24.01.2024 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में। कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म दाखिल करके य

डिलीवरी या भेजने का कारण बन सकता है। अपनी आपत्तियों को क्षेत्रीय निदेशक – उत्तरी क्षेत्र के बी-2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, दूसरी मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली — 110003 के पते पर अपनी रुचि की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए एक हलफनामे वे साथ पंजीकृत डाक से भेजें। इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर आवेदक कंपर्न को उसके पंजीकृत कार्यालय में नीचे दिए गए पते पर एक प्रति भेजें:

"युनिट नंबर—111, अग्रवाल सिटी स्क्वायर, प्लॉट नंबर—10, डिस्ट्रिक्ट सेंटर मंगलम प्लेस, सेक्टर—3, रोहिणी सेक्टर-11, उत्तर पश्चिम दिल्ली-110085, दिल्ली"

आवेदक के लिए और उसकी ओर र दिनांक— 01.02.2024 कृतिका खंडेलवाल स्थान – दिल्ली



एतद्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) एवं गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है, जिनका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सरक्षित लेनदार को गिरवी ६ चार्ज की गई है जिसका कब्जा मैसर्स उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा 30.01.2024 को कर लिया गया है, युएचएफपीएल (न्थ्ब्ब्स) में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार, कंपनी के बकाया की वसूली के लिए दिनांक 12.03.2024 को "जहाँ है जैसा है", " जो है जैसा है" पर बिक्री की जायेगी।

है, चौहद्दी — पूर्व—प्लॉट नंबर 3 पश्चिम— प्लॉट नंबर 1 उत्तर— अन्य भूमि दक्षिण—14 फीट चौड़ी सड़क और प्लॉट—3, माप 41.82 वर्ग मीटर, चौहदी-पूर्व-प्लॉट नंबर 4, पश्चिम-प्लॉट नंबर 2 उत्तर- अन्य भृमि, खसरा नंबर 27, मृगल गार्डन कॉलोनी, ग्राम पिपलेरा, परगना डासना, तहसील धौलाना, गाजियाबाद (अब जिला हापड)। सीमाएं- उत्तर-अन्य प्लॉट, दक्षिण— 14 फीट रोड, पूर्व—प्लॉट नंबर 4, पश्चिम—प्लॉट नंबर 1

का नाम और पता	2.ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय	2 संपत्ति की ईएमडी 3 बोली वृद्धि
 शानवाज़ पुत्र खलील अहमद (उघारकर्ता) 2. खलील अहमद पुत्र शफीक अहमद (सह-उघारकर्ता), उपरोक्त दोनों का निवास स्थान :- मकान नंबर 266 वार्ड नंबर 11, मोहल्ला बाजी ग्राम डासना गाजियाबाद-यू.पी-201302 लैन. सं. LXGHZ02918-190002744 और LXGHZ02419-200006948 कुल बकाया राशि 25-01-2024 के अनुसार रु. 21,21,415 / - है, जिसमें 26-01-2024 से अति. रिक्त ब्याज और अन्य शुल्क शामिल हैं। 	1) नीलामी की तिथिः 12.03.2024ः दोपहर 12:00 बजे से अप. 1:00 बजे के बीच 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 2) केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 08.03.2024ः को शाम 7:00 बजे तक (आईएसटी) 3) निरीक्षण की तिथिः 05.03.2024ः को पूर्वाह्न 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच (आईएसटी)	आरक्षित मूल्यः रु.15,08,000 / धरोहर जमा राशिः रुपये 1,50,800 / – बोली वृद्धि – रु. 15,000 / – और ऐसे गुणांकों में।
स्थानः गुरुग्राम, दिनांकः 02.02.2024	हरियाणा प्राधिकृत अधिकारी ,श्री गौर उम्मीद हाउसिंग	व त्रिपाठी —9650055701 फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड,

SUZLON POWERING A GREENER TOMORROW

SUZLON ENERGY LIMITED

Registered Office: "Suzlon", 5, Shrimali Society, Near Shri Krishna Complex, Navrangpura, Ahmedabad 380 009, Gujarat, India; Tel: +91 79 6604 5000

Corporate Office: One Earth, Hadapsar, Pune 411 028, Maharashtra, India; Tel: +91 20 6702 2000 Contact Person: Geetanjali S. Vaidya, Company Secretary and Compliance Officer

E-mail: investors@suzlon.com; Website: www.suzlon.com

Corporate Identity Number: L40100GJ1995PLC025447

This is only an Advertisement for the information purpose and not for publication, distribution, or release, directly or indirectly, in the United States of America or otherwise outside India. This is not an offer document. All capitalised terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated 28th September 2022 read with addendum dated 10th October 2022 filed with BSE Limited ('BSE') and the National Stock Exchange of India Limited ('NSE'), the stock exchanges where the Equity Shares of the Company are presently listed (BSE and NSE hereinafter together referred to as the "Stock Exchanges") and Securities and Exchange Board of India ('SEBI').

LAST REMINDER-CUM-FORFEITURE NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP **EQUITY SHARES ON WHICH CALL MONEY IS TO BE PAID (ISIN : IN9040H01011)**

LAST DATE OF PAYMENT: ON OR BEFORE 20[™] FEBRUARY 2024.

In terms of provisions of the Companies Act, 2013 ('Act'), read with the relevant rules made thereunder, the First and Final Call Notice had been issued to such persons who were members of the Company on 2nd March 2023, being the Record Date. The call payment period has since expired on 23nd March 2023.

In this connection, the Board of Directors of the Company, at its meeting held on 31" January 2024, approved sending Last Reminder-cum-Forfeiture Notice for payment of the First and Final Call amount of ₹2.50 per partly paid-up equity share (comprising ₹1.00 towards face value and ₹1.50 towards

securities premium), to the holders of such partly paid-up equity shares on which the First and Final Call Money remains unpaid. Accordingly, the Company has sent the Last Reminder-cum-Forfeiture Notice to the shareholders who have not paid the call money.

The payment of the First and Final Call has to be made immediately but not later than 20th February 2024 through Demand Draft, the details are as under:

- DD to be drawn in favour of: SUZLON ENERGY LIMITED RIGHT ALLOTMENT ACCOUNT
- ii. DD payable at: Hyderabad or at par

Dated: 1" February 2024

Place: Pune

- iii. Check amount due and payable from below link: https://rights.kfintech.com/suzloncallmoney/InterestCalculator.aspx
- iv. DD to be accompanied by Payment Slip containing details such as Name, DPID-Client ID, No. of shares, Amount, DD date and Number, Name of Bank

v. DD along with the payment slip to be sent to: KFin Technologies Limited, (Unit: Suzlon Energy Limited), Selenium Tower B, Plot No.31 and 32, Financial District, Nanakramguda, Rangareddi-500032, Telangana, India.

The payment slip and detailed instructions for payment of Call Money are available on the web link of Kfin Technologies Limited at https://rights.kfintech.com/suzloncallmoney/Downloads.aspx. Please read the same carefully before proceeding for payment.

Please note that, last date of payment is 20" February 2024. Failure to pay the First and Final Call Money, as aforesaid, shall render the partly paid-up equity shares of the Company, including the amount already paid thereon, liable to be forfeited in accordance with the provisions of the Act, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer. Further, interest @ 8.00 % (Eight per cent only) p.a. will continue to be charged for delay in payment of the First and Final Call from 24" March 2023 till date of the actual payment of the First and Final Call. The Company shall be entitled to deduct from any dividend payable to such members, if any, all sums of money outstanding on account of calls and interest due thereon in relation to the partly paid-up equity shares of the Company.

All correspondence in this regard may be addressed to: KFin Technologies Limited, Unit: Suzlon Energy Limited, Selenium Tower B, Plot No.31 and 32, Financial District, Nanakramguda, Rangareddi-500032, Telangana, India; Contact person: Mr. M. Murali Krishna Tel: +91 40 6716 2222; Toll Free No. 1800 309 4001 (operational from Monday to Saturday between 9 a.m. and 5 p.m.) E-mail id: einward.ris@kfintech.com.

> For Suzlon Energy Limited Sd/-

Geetanjali S.Vaidya, Company Secretary.

www.readwhere.com